



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2010/माघ 19, 1931

No. 236]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2010/MAGHA 19, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2010

का.आ. 278(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 2620(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 63.180 कि.मी. से 63.400 कि.मी. (नीलमंगला-तुमकुर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 14 नवम्बर, 2009 को "टाइम्स आफ इंडिया" और तारीख 14 नवम्बर, 2009 को "कन्नड़ प्रभा" में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के तुमकूर शहरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 63.180 कि.मी. से 63.400 कि.मी. तक (निलमंगला - तुमकूर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में/वर्ग मी0 में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तुमकूर	तुमकूर	क्यातसन्द्रा	74	एन ए के	निजी	2032	चान्द बी
								फरीदा बानु
								शहीना बानु
								सफुराबी
								शमीम
								अरसम्मा
								सिद्धगंगम्मा
								गौरम्मा
								बाशासाब
								अमीर जान
								शारदा
								कृष्णप्या
								गोविन्दप्या
								बसवराजु
								थेरबी
								लक्ष्मम्मा
								गोविन्दराजु
								राधम्मा
								बाबु और खाली जगा
				74	ग्रामथाना	सरकारी	404	सरकारी हल्ला

[फा. सं. भारासप्रा/13012/18 टीबी/2000-पीआई/19]

सुमेर सिंह गुलिया, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2010

S.O. 278(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road, Transport and Highways, number **S.O. 2620(E) dated 13th October 2009**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 4 on the stretch of land from Km.63.180 to Km.63.400 (Nelamangala-Tumkur Section) in Tumkur District, in the State of Karnataka;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India” dated the 14th November and “Kannada Prabha” dated 14th November 2009; under sub-section (3) of Section 3(A) of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.63.180 to Km.63.400 (Nelamangala-Tumkur Section) on the National Highway No.4 in the State of Karnataka.

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the village	Sy.No.	Type of land	Nature of land	Area in sq. mtrs.	Name of the land owner/interested persons (Smt/Sri)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tumkur	Tumkur	Kyathasandra	74	NAK	Private	2032	Chand bee
								Famida Banu
								Shahina Banu
								Safurabee
								Shameem
								Arasamma
								Siddagangamma
								Gowramma
								Bashasab
								Amir Jann
								Sharada
								Krishanappa
								Govindappa
								Basavaraju
								Thairabee
								Lakshmamma
								Govindaraju
								Radamma
								Babu & Vacant sites
				74	Gramthana	Government	404	Government Halla

[F. No. NHAI/13012/18-TB/2000-PI/19]

S. S. GULIA, Dy. Secy.